



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1935 (श0)
(सं0 पटना 13) पटना, वृहस्पतिवार, 2 जनवरी 2014

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

26 नवम्बर 2013

सं0 22/नि0सि0(डि0)-14-16/2013/1413—श्री कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, सहायक अभियन्ता, (आई0 डी0-4524) सोन नहर आधुनिकीकरण अवर प्रमण्डल, बसाबन को स्वेच्छापूर्वक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने, उत्तरदायित्व के निर्वहन में लापरवाही एवं नियंत्री पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में श्री कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, सहायक अभियन्ता, (आई0 डी0-4524) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन की अवधि में श्री गुप्ता को नियमानुसार अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
3. निलंबन की अवधि में श्री गुप्ता का मुख्यालय, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पटना निर्धारित किया जाता है।
4. विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मोहन पासवान,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 13-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>